

^ नुगरा मिलज्यो रे मती _^_

म्हारे मालिक के दरबार, आवणा जती क और नर सती रे ।

नुगरा मिलज्यो रे मती, मती रे म्हारे मालिक के दरबार ॥

ज्ञान सरौदे सुरत पपैया, माखन खाणा मती ।

जे खाणा तो शायर खाणा, ज्या में निपजै रति रे ॥ १ ॥

पहली तो या गुप्त होवती, अब होवे लागी प्रगटी ।

राजा हरिशचंद्र तो सिद्ध कर निकल्या, लेरा तारा सती रे ॥ २ ॥

के योजन में संत बसत है, के यौजन में जती ।

नो योजन में संत बसत है, दस योजन में जती रे ॥ ३ ॥

दत्तात्रेय ने गोरख मिल गया, मिल गया दोनु जती ।

राजा दशरथ का छोटा बालक, गावे लक्ष्मण जती रे ॥ ४ ॥

जय श्री नाथजी की